



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 7] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 17, 2001/माघ 28, 1922
No. 7] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 17, 2001/MAGHA 28, 1922

इस भाग में मिला पृष्ठ संख्या की जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके ।

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed
separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की छोड़कर) द्वारा जारी किये गये आदेश और अधिसूचनाएं
Orders and Notifications issued by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

भारत निर्वाचन आयोग
आदेश

नई दिल्ली, 7 फरवरी, 2001

आ. अ. 31.—प्रतः श्री मानबेन्द्र मण्डल ने, जो 1999 में हुए लोक सभा के निर्वाचन के लिए 31-कोटाई संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लड़ने वाले एक अभ्यर्थी थे, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन अपने निर्वाचन-व्ययों का कोई भी लेखा, समय के भीतर और विधि द्वारा अपेक्षित रीति से दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और यतः, श्री मानबेन्द्र मण्डल ने सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी उक्त असफलता के लिए कोई कारण या स्पष्टीकरण नहीं दिया है ;

यतः निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उक्त असफलता के लिए उनके पास कोई पर्याप्त कारण था या यौक्तिक नहीं है ;

अतः, अब उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग इसके द्वारा कि उक्त श्री मानबेन्द्र मण्डल को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की विधान-सभा या विधान परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है ।

[सं. 76/प. बं.-नो. स./2001]

आदेश से,

जनश्याम खंहिर, सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA
ORDER

New Delhi, the 7th February, 2001

O.N. 31.—Whereas Shri Manabendra Mandal a contesting candidate at the election to the House of the People, 1999, held from 31-Contai Parliamentary Constituency has failed to lodge his account of election expenses within the time and in the manner required by law as required by the

Representation of the People Act, 1951 and the Rules made thereunder, and

Whereas Shri Manabendra Mandal has not furnished any reason or explanation for the said failure even after due notice of the Election Commission;

And, whereas, the Election Commission is satisfied that the said candidate has no good reason or justification for the said failure;

Now, therefore, in pursuance of Section 10A of the said Act, the Election Commission declares

Shri Manabendra Mandal to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of 3 years from the date of this Order.

[No. 76/WB-HP/2001]

By Order,

GHANSHYAM KHOHAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 7 फरवरी, 2001

आ.प्र. 32.—यतः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि सिक्किम विधान सभा के साधारण निर्वाचन 1999 के लिये जो नीचे की सारणी के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट निर्वाचन क्षेत्र से हुआ है, स्तम्भ (4) में उसके सामने विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्वीन बनाये गये नियमों द्वारा अपेक्षित उक्त सारणी के स्तम्भ (5) में यथा दर्शित अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में अथवा अपेक्षित रीति से दाखिल करने में असफल रहा है;

और यतः उक्त अभ्यर्थियों ने सत्यक् सूचना दिये जाने पर भी उक्त असफलता के लिये कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास उक्त असफलता के लिये कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है;

अतः अब, निर्वाचन आयोग उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में नीचे की सारणी के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिये इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिये निरहित घोषित करता है :-

सारणी

क्र.सं.	विवरण	निर्वाचन-क्षेत्र की क्र.सं. और नाम	अभ्यर्थी का नाम और पता	निरर्हता का कारण
1	2	3	4	5
1.	सिक्किम विधान- सभा के लिये साधारण निर्वाचन, 1999	17-केंद्रीय पेंशनान्त-पूर्व	श्रीमती सीताकारकी सोअर बाजार रंगपो सिक्किम	निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल नहीं किया।
2.	-वही-	31-गंगटोक	आनन्द लामा कंचन वीथी, देवगली, सिक्किम	-वही-
3.	-वही-	-वही-	नेनदुप दोरजी भुटीया, पेनलॉंग बाजार, सिक्किम	-वही-

[सं. 76/सिक्किम-वि.स./2001]

आदेश से,

घनश्याम खोहर, सचिव

ORDER

New Delhi, the 7th February, 2001

O.N. 32.—Whereas, the Election Commission is satisfied that each contesting candidate specified in column (4) of the Table below at the General Election to the Sikkim Legislative Assembly held in 1999 from the Assembly Constituency as specified in column (3) against his/her name has failed to lodge an account of his/her election expenses or in the manner required by the law as shown in column (5) of the said Table as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder:

And whereas, the concerned candidate has either not furnished any reason/explanation for the said failure even after due notice and the Election Commission, after considering the representation, if any, made by him/her is satisfied that he/she has no good reason or justification for the said failure;

Now, therefore, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby declares the persons specified in column (4) of the Table below to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of the Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State/Union Territory for a period of three years from the date of this order.

TABLE

S. No.	Particulars	Sl. No. & Name of Constituency	Name & Address of Candidates	Reason for Disqualification
1	2	3	4	5
1.	General Election to the Sikkim Legislative Assembly, 1999.	17—Central pendam East,	Smt. Reeta Karki, Lower Bazer, Rangpo, Sikkim.	Failed to lodged any account of election expenses.
2.	—do—	31—Gangtok	Anand Lama, Kanchan View, Deorali, Sikkim.	—do—
3.	—do—	—do—	Thendup Dorjee Bhutia, Penlong Bazer, Sikkim.	—do—

[No. 76/SKM-LA/2001]

By Order,

GHANSHYAM KHOHAR, Secy

आदेश

नई दिल्ली, 7 फरवरी, 2001

आ.प्र. 33.—मत: निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि उड़ीसा विधान सभा के साधारण निर्वाचन 2000 के लिये जो नीचे की सारणी के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट निर्वाचन क्षेत्र से हुआ है, स्तम्भ (4) में उसके सामने विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्वत बनाये गये नियमों द्वारा अपेक्षित उक्त सारणी के स्तम्भ (5) में क्या दणित अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा-दाखिल करने में अथवा अपेक्षित रीति से दाखिल करने में असफल रहा है;

और यतः उक्त अभ्यर्थियों ने सम्यक् सूचना दिये जाने पर भी उक्त असफलता के लिये कोई पर्याप्त कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास उक्त असफलता के लिये कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है;

अतः अब, निर्वाचन आयोग उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में नीचे की सारणी के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान

परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के लिये इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिये निरहिता घोषित करता है :—

सारणी				
क्र.सं.	विवरण	निर्वाचन क्षेत्र की क्र.सं. और नाम	अभ्यर्थियों का नाम और पता	निरहिता का कारण
1	2	3	4	5
1.	उड़ीसा विधान सभा का साधारण निर्वाचन, 2000	86—मलकानगिरी (अ.जा.)	नाका नुकल राजू ग्राम-पोडिआ, पोस्ट-पोडिआ जिला-मलकानगिरी	निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
2.	—वही—	87—चित्तकोण्डा (अ.ज.जा.)	प्रसाद नायक ग्राम—गोडिअली पोस्ट-उदुलिबेडा जिला-मलकानगिरी, उड़ीसा	—वही—

[सं. 76/उड़ीसा-वि.स./2001]

आदेश से,
घनश्याम खोहर, सचिव

ORDER

New Delhi, the 7th February, 2001

O.N. 33.—Whereas, the Election Commission is satisfied that each contesting candidate specified in column (4) of the Table below at the General Election to the Orissa Legislative Assembly held in 2000 from the Assembly constituency as specified in column (3) against his/her name has failed to lodge an account of his/her election expenses or in the manner required by the law as shown in column (5) of the said Table as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas, the concerned candidate has either not furnished any reason/explanation for the said failure even after due notice and the Election Commission, after considering the representation, if any made by him/her is satisfied that he/she has no good reason or justification for the said failure;

Now, therefore, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby declares the persons specified in column (4) of the Table below to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of the Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State/Union Territory for a period of three years from the date of this order.

TABLE

S. No.	Particulars	S. No. & Name of Constituency	Name & Address of Candidates	Reason for disqualification
1	2	3	4	5
1.	General Election to the Orissa Legislative Assembly, 2000.	86—Malkangiri (SC)	Naka Nukal Raju, Vill. Podia, Post : Podia, Distt. : Malkangiri, Orissa.	Failed to lodge any account of election expenses.
2.	—do—	87—Chitrakonda (S.T.)	Prasad Nayak, Vill. : Godiali, Post : Udulibeda, Distt. : Malkangiri, Orissa.	—do—

[No. 76/OR-LA/2001]

By Order,
GHANSHYAM KHOHAR, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 7 फरवरी, 2001

आ.अ. 34.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि केरल संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से निर्वाचन के लिये जो नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट निर्वाचन-क्षेत्र से हुआ है स्तम्भ (3) में उसके सामने विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तख्तीन बनाये गये नियमों द्वारा अपेक्षित उक्त सारणी के स्तम्भ (4) में यथा दक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहा है;

और यतः उक्त अभ्यर्थियों ने सम्यक् सूचना दिये जाने पर भी उक्त असफलता के लिये या तो कोई कारण ग्रथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास उक्त असफलता के लिये कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है ;

अतः अब, निर्वाचन आयोग उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में नीचे की सारणी के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिये इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिये निरहित घोषित करता है :—

सारणी

क्र.सं.	संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र की सं. और नाम	निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी का नाम और पता	निर्हरता का कारण
1	2	3	4
1.	16-मबेलीकारा	श्री के. शशि कुमार, तोटाप्पाटु वीट्टु, बाम्बामुटोम वल्लिककोडे, ग्राम-कोटायम पो. आ. पतानमतिटा, जिला	कोई भी लेखा दाखिल नहीं किया।

[सं. 76/केरल-लो.स./98]

आदेश से,

बाबू राम, सचिव

ORDER

New Delhi, the 7th February, 2001

O.N. 34.—Whereas the Election Commission is satisfied that each of the contesting candidates specified in column (3) of the Table below at the Election to the Kerala Parliamentary Constituency, 1998 held from the Constituency specified in column (2) against his name has failed to lodge an account of his election expenses as mentioned in column (4) of the said Table, as required by the Representation of the People Act, 1951 and the Rules made thereunder;

And, whereas, the said candidate has either not furnished any reason or explanation for the said failure even after due notice to him and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the said failure;

Now, therefore, in pursuance of Section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the person specified in column (3) of the Table below to be disqualified for being chosen as and for being, a member

of either House of the Parliament or Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of 3 years from the date of this Order.

TABLE

Sl. No. & name of Parliamentary No. Contiguency	Name & Address of the contesting candidate	Reason for disqualification
1	2	3
1. 16—Mavelikara	Sh. K. Sasikumar, Thottappatu veedu, Vazhamuttom, Vallikkode, V-Kottayam P.O., Pathanamthitta District	Accounts not lodged at all.

[No. 76/KL-HP/98]

By Order,
BABU RAM, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 7 फरवरी, 2001

आ.अ. 35.—यतः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि तमिलनाडु विधान सभा के उम्मीदवार 2000 के लिए जो नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट निर्वाचन-क्षेत्र से हुआ है स्तम्भ (3) में उसके सामने विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्विनियमित गण नियमों द्वारा अपेक्षित उक्त सारणी के स्तम्भ (4) में यथा दर्शित अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहा है ;

और यतः उक्त अभ्यर्थियों ने सम्यक् सूचना दिये जाने पर भी उक्त असफलता के लिये कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास उक्त असफलता के लिये कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है ;

अतः अब, निर्वाचन आयोग उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में नीचे की सारणी के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य/संघ राज्य/क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिये इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिये निरहित घोषित करता है :—

सारणी

क्र.सं.	निर्वाचन-क्षेत्र की क्र.सं. और नाम	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी का नाम और पता	निरहता का कारण
1	2	3	4
1.	62—नेल्लिकुप्पम	सेकर, के. पुलावानुर और पोस्ट पनरुति तालुक	कोई भी लेखा दाखिल नहीं किया ।

[सं. 76/त.ना.वि.स./2000(उप)]

आदेश से,
बाबू राम, सचिव

ORDER

New Delhi, the 7th February, 2001

O.N. 35.—Whereas the Election Commission is satisfied that the contesting candidate specified in column (3) of the Table below at the Bye-election to the Tamil Nadu Assembly Constituency, 2000 held from the constituency specified in column (2) against him mentioned in column (4) of the said Table, as required by the Representation of the People Act, 1951 and the Rules made thereunder;

And, whereas, the said candidate has not furnished any reason or explanation for the said failure even after due notice to him and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the said failure;

Now, therefore, in pursuance of Section 10A of the said Act the Election Commission hereby declares the person specified in column (3) of the Table below to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of 3 years from the date of this Order.

TABLE

Sl. No. & Name of Assembly No. Constituency	Name & Address of the contesting candidate	Reason for disqualification
1	2	3
1. 62--Nellikuppam	Sekar. K. Pulavanur & Post Panruti Taluk.	Accounts not lodged at all.

[No. 76/TN-LA/2000(Bye)]

By Order,

BABU RAM, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 7 फरवरी, 2001

आ.अ. 36.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि तमिलनाडु लोकसभा साधारण निर्वाचन के लिए जो नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट निर्वाचन-क्षेत्र से हुआ है, स्तम्भ (3) में उसके सामने विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्वीन बनाए गए नियमों द्वारा प्रेषित उक्त सारणी के स्तम्भ (4) में यथा दशित अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहा है;

और यतः, उक्त अभ्यर्थियों ने सम्यक् सूचना दिये जाने पर भी उक्त असफलता के लिये कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास उक्त असफलता के लिये कोई पर्याप्त कारण या न्यायचित्य नहीं है;

अतः अब, निर्वाचन आयोग उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में नीचे की सारणी के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिये इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिये निरहित घोषित करता है :—

सारणी

क्र.सं.	संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र की क्र.सं. और नाम	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी का नाम और पता	निरर्हता का कारण
1	2	3	4
1.	17--तिरुचेंगोडे	1. श्री मरथयन, सुपुत्र कालीऊप्पन 261, कटुवालाक, इलान्थाकुर्दई, तिरुचेंगोडे तालुक, नामाक्कल जिला	कोई भी लेखा दाखिल नहीं किया।

1	2	3	4
2.	17—तिरुचेंगोडे	2. श्री पी. सेल्वा-कुमार सुपुत्र पोन्नुमामी, शयार पालयम पी. आ. कुमारमंगलम वाया, तिरुचेंगोडे तालुक, नामाक्कल जिला	कोई भी लेखा दाखिल नहीं किया।

[सं. 76/त.ना.-लो.स./99]

आदेश से,

बानू राम, सचिव

ORDER

New Delhi, the 7th February, 2001

O.N. 35.—Whereas, the Election Commission is satisfied that each of the contesting candidates specified in column (3) of the Table below at the General Election to the House of the People, 1999 held from the Constituency specified in column (2) against his/her name has failed to lodge an account of his/her election expenses as mentioned in column (4) of the said Table, as required by the Representation of the People Act, 1951 and the Rules made thereunder;

And, whereas the said candidates have either not furnished any reason or explanation for the said failure even after due notice to each of them and the Election Commission is satisfied that they have no good reason or justification for the said failure;

Now, therefore, in pursuance of Section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the persons specified in column (3) of the Table below to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of 3 years from the date of this Order.

TABLE

S. No. & Name of Parliamentary No. Constituency	Name & Address of the contesting candidate	Reason for disqualification
1	2	3
1. 17—Tiruchengode	1. Sh. K. Mathaiyan, S/o Kali Appan, 261, Kattuvalavu Ellanthakuttai, Tiruchengode Tk., Namakkal District.	Accounts not lodged at all.
	2. Sh. P. Selva-Kumar, S/o Ponnusamy, Rayarpalayam P.O., Kumaramangalam via. Tiruchengode Tk., Namakkal District.	--do--

[No. 76/TN-HP/99]

By Order,

BABU RAM, Secy.